



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Evening Session**

Q1. कपडे का पर्यायवाची शब्द लिखिये।

- A. मान  
B. वान  
C. चीज़  
D. वस्त्र

Q2. गर्व शब्द का अर्थ लिखिये।

- A. गरिमा  
B. अभिष  
C. अभिमान  
D. परिणाम

Q3. हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है।  
रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए।

- A. चाह  
B. मनोबल  
C. मान  
D. सुखमै

Q4. चतुर का विलोम शब्द \_\_\_\_\_ है।

- A. मुख  
B. मज़बूरी  
C. साधारण  
D. संपन्न

Q5. अंत भला सो सब भला। इस मुहावरे का अर्थ समझाइये।

- A. अंत में सब ठीक होता है।  
B. अंत ही सब कुछ है।  
C. अंत ठीक हुवा तोह सब ठीक है।  
D. अंत नहीं तोह कुछ नहीं है।



## Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

### Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Evening Session

Q6. अन्धा क्या जाने बसंत की बहार ।

इस मुहावरे का अर्थ समझाइये।

A. एक अँधा आदमी कुछ भी नहीं देख सकता

B. अँधा आदमी रंग नहीं पहचान सकता है।

C. एक अँधा आदमी अपने ही मार्ग पर चलता है।

D. मन के अन्धकार के कारण किसी में अच्छाई देख ना पाना

Q7. **बेटियाँ** का एकवचन \_\_\_\_\_ है।

A. बेटियाँ

B. बेटि

C. बैटी

D. बहीं

Q8. **घोड़ा** का बहुवचन \_\_\_\_\_ है।

A. घोड़े

B. घोडा

C. घोड़ी

D. घोड़ा

Q9. **रोटी** के लिए हर कोई काम करता है।

रेखांकित शब्द का बहुवचन लिखिए।

A. रोटी

B. रोती

C. रोटियाँ

D. रोतीँ

Q10. नदी के तट पर कई गांव बसते हैं।

नदी का बहुवचन शब्द लिखिए।

A. नदी

B. नाड़ी

C. नादया

D. नदियाँ



# Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

## Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Evening Session

Q11. What is the meaning of the word 'Strategy'?

- A. A strange story  
B. A plan  
C. A way of thinking  
D. A disturbance

Q12. To get into a university, he had to take an assessment.  
What is the meaning of the underlined word?

- A. Test  
B. Approval  
C. Accommodation  
D. Flight

Q13. The Antonym of **inferior** is \_\_\_\_\_.

- A. Excellent  
B. Supportive  
C. Exterior  
D. Superior

Q14. Some of the business leaders are very **generous** and contribute for the betterment of the society.  
What is the Antonym of the word generous?

- A. Ungrateful  
B. Poor  
C. Stingy  
D. Serious

Q15. When you come across someone interesting, **you may fall in** \_\_\_\_\_.  
Complete the above phrase.

- A. road  
B. trap  
C. hatred  
D. love

Q16. What is the meaning of the phrase '**Beating around the Bush**' ?

- A. To talk softly and clearly.  
B. To speak in a roundabout indirect way.  
C. To speak the truth  
D. To speak in an unnatural way.



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q17. Identify the correct sentence from the below options.

- A. Luckily only a person was injured. B. Lucky, one person was injured.  
C. Luckily, only one person was injured. D. Luckily, only a one person was injured.

Q18. From among the given options, pick the correct sentence.

- A. It takes me about a hour to get to work. B. It takes me about an hour to get to work.  
C. It takes me about a hour going to work. D. It takes me an hour to get to work.

Q19. Identify the sentence with the least or no errors.

- A. In the old days, many children's did not go to school. B. In the old days, many children did not go to a school.  
C. In the old days, many children did not go to school. D. In the old days many children does not go to school.

Q20. The police \_\_\_\_\_ people in the neighborhood since last week.  
Complete the sentence by filling with the appropriate answer option.

- A. have been interrogating B. has interrogated  
C. have interrogated D. has been interrogating

Q21. Lord Mahavira was a proponent of \_\_\_\_\_ in India.

- A. Buddhism B. Shintoism  
C. Zoroastrianism D. Jainism

Q21. भगवान महावीर भारत में \_\_\_\_\_ के प्रचारक/उन्नायक थे।

- A. बुद्ध धर्म B. शिंतो धर्म  
C. पारसी धर्म D. जैन धर्म



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q22. Aryabhata, one of the famous mathematicians from India was born in \_\_\_\_\_.

- A. Kashmir  
C. Bengal
- B. Bihar  
D. Tamilnadu

Q22. भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट, का जन्म \_\_\_\_\_ में हुआ था।

- A. कश्मीर  
C. बंगाल
- B. बिहार  
D. तमिलनाडु

Q23. Who is the Vice Chairman of Niti Aayog, as on 1<sup>st</sup> of February 2020 ?

- A. Shreedharan Kamath  
C. Dr. Suresh Bhandari
- B. Dr. Rajiv Kumar  
D. Shri P.B. Panth

Q23. 1 फरवरी 2020 की स्थिति में नीति अयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं?

- A. श्रीधरन कामथ  
C. डॉ सुरेश भंडारी
- B. डॉ राजीव कुमार  
D. श्री पी बी पंथ

Q24. The other name of Yarlung Tsangpo river in India is \_\_\_\_\_.

- A. Ganga  
C. Brahmaputra
- B. Indus  
D. Mahanadi

Q24. भारत में यारलंग सैनपो नदी का दूसरा नाम \_\_\_\_\_ है।

- A. गंगा  
C. ब्रह्मपुत्र
- B. सिंधु  
D. महानदी

Q25. The Tropic of Cancer passes through \_\_\_\_\_ states in India.

- A. Eight  
C. Eleven
- B. Seven  
D. Five



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q25. भारत में कर्क रेखा \_\_\_\_\_ राज्यों से होकर गुजरती है।

- A. आठ  
B. सात  
C. ग्यारह  
D. पांच

Q26. The largest petroleum refinery of India owned by Reliance is located in \_\_\_\_\_.

- A. Bangalore  
B. Bilaspur  
C. Mumbai  
D. Jamnagar

Q26. रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी \_\_\_\_\_ में स्थित है।

- A. बेंगलोर  
B. बिलासपुर  
C. मुंबई  
D. जामनगर

Q27. The minimum age for being elected as a member of Lok Sabha is \_\_\_\_\_ years.

- A. 21  
B. 23  
C. 25  
D. 30

Q27. लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु \_\_\_\_\_ वर्ष है।

- A. 21  
B. 23  
C. 25  
D. 30

Q28. At present the total number of members in the Rajya Sabha is \_\_\_\_\_.

- A. 250  
B. 248  
C. 245  
D. 242

Q28. वर्तमान में, राज्य सभा में सदस्यों की कुल संख्या \_\_\_\_\_ है।

- A. 250  
B. 248  
C. 245  
D. 242



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q29. After the defeat of the Sikhs in the year 1849, the present day Haryana was annexed to the \_\_\_\_\_.

- A. Rajputs  
B. Peshawars  
C. Marathas  
D. British

Q29. सन 1849 में सिक्खों की हार के बाद, वर्तमान हरियाणा को \_\_\_\_\_ के द्वारा हड़प लिया गया था।

- A. राजपूतों  
B. पेशावर  
C. मराठों  
D. अंग्रेजों

Q30. The famous traveller Hiuen Tsang who had come to Haryana in the 17<sup>th</sup> century to learn Buddhism was from \_\_\_\_\_.

- A. Israel  
B. Sri Lanka  
C. Indonesia  
D. China

Q30. बौद्ध धर्म सीखने के लिए 17 वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेन त्सांग \_\_\_\_\_ से थे।

- A. इजराइल  
B. श्री लंका  
C. इंडोनेशिया  
D. चीन

Q31. Which of the following districts of Haryana is referred as Suvarna Prastha (Gold Palace)?

- A. Kurukshetra  
B. Panipat  
C. Sonapat  
D. Sirsa

Q31. निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को सुवर्णा प्रस्थ (गोल्ड पैलेस) कहा जाता है?

- A. कुरुक्षेत्र  
B. पानीपत  
C. सोनीपत  
D. सिरसा

Q32. As on 1 January 2020, who is the present Chief Minister of Haryana?

- A. Kuldeep Bishnoi  
B. Dushyant Choutala  
C. Manohar Lal Khattar  
D. Bhagwat Dayal Sharma



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q32. 1 जनवरी 2020 तक, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं?

- A. कुलदीप बिश्नोई  
B. दुष्यंत चौटाला  
C. मनोहर लाल खट्टर  
D. भागवत दयाल शर्मा

Q33. The state of Haryana was formed on \_\_\_\_\_.

- A. 1<sup>st</sup> of October 1956  
B. 1<sup>st</sup> of November, 1966  
C. 1<sup>st</sup> of October 1966  
D. 1<sup>st</sup> of November 1962

Q33. हरियाणा राज्य का गठन \_\_\_\_\_ को हुआ था।

- A. 1 अक्टूबर 1956  
B. 1 नवंबर, 1966  
C. 1 अक्टूबर 1966  
D. 1 नवंबर 1962

Q34. Before the formation of Jannayak Janata Party, Dushyant Chautala was a member of \_\_\_\_\_.

- A. Bharatiya Janata Party  
B. Indian National Congress  
C. Indian National Lok Dal  
D. Sarvhit Party

Q34. जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले, दुष्यंत चौटाला \_\_\_\_\_ के सदस्य थे।

- A. भारतीय जनता पार्टी  
B. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  
C. इंडियन नेशनल लोकदल  
D. सर्वहित पार्टी

Q35. The Indian Institute of Management(IIM) is located at \_\_\_\_\_ in Haryana.

- A. Rohtak  
B. Hisar  
C. Karnal  
D. Panipat

Q35. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) हरियाणा के \_\_\_\_\_ जिले में स्थित है।

- A. रोहतक  
B. हिसार  
C. करनाल  
D. पानीपत





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q36. A research institute CIRB is located in Hisar in Haryana.  
What is the full form of CIRB?

- A. Council for Information and Research on Buffaloes  
B. Central Industrial Research Board  
C. Central Institute for Research on Buffaloes  
D. Council for Industrial Research on Buffaloes

Q36. अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। CIRB का वितरित रूप क्या है?

- A. काउंसिल फॉर इनफार्मेशन एंड रिसर्च ऑन बफैलोस  
B. सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड  
C. सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफैलोस  
D. काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑन बफैलोस

Q37. Which of the following languages is NOT spoken in Haryana ?

- A. Punjabi  
B. Haryanvi  
C. Hindi  
D. Gujrati

Q37. निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती है?

- A. पंजाबी  
B. हरियाणवी  
C. हिंदी  
D. गुजराती

Q38. Which of the following festivals is NOT celebrated in Haryana ?

- A. Lohri  
B. Holi  
C. Onam  
D. Baisakhi

Q38. निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता है?

- A. लोहड़ी  
B. होली  
C. ओनम  
D. बैसाखी

Q39. The dance form of Haryana which is symbolic of the ornament worn by the young married women on their forehead is called as \_\_\_\_\_.

- A. Ghoomar  
B. Jhumar  
C. Loor  
D. Gugga Dance



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q39. हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसे \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

- A. घूमर **B. झूमर**  
C. लूर D. गुग्गा नृत्य

Q40. The great war, which took place among the ten kings in the Kurukshetra region in the Saraswati valley was before the \_\_\_\_\_.

- A. war of Panipat **B. Mahabharatha**  
C. Kalinga War D. the arrival of the Mughals

Q40. सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में दस राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध \_\_\_\_\_ से पहले लड़ा गया था।

- A. पानीपत के युद्ध **B. महाभारत**  
C. कलिंग युद्ध D. मुगलों के आगमन

Q41. The capital of Haryana is located in the state of \_\_\_\_\_.

- A. Uttar Pradesh B. Rajasthan  
C. Haryana **D. Punjab**

Q41. हरियाणा राज्य की राजधानी \_\_\_\_\_ राज्य में स्थित है।

- A. उत्तर प्रदेश B. राजस्थान  
C. हरियाणा **D. पंजाब**

Q42. Across India, Haryana is ranked as the 20<sup>th</sup> state in terms of its \_\_\_\_\_.

- A. population **B. land Area**  
C. literacy D. forest cover

Q42. भारत में हरियाणा को \_\_\_\_\_ के संदर्भ में 20 वें स्थान पर रखा गया है।

- A. आबादी **B. भूक्षेत्र**  
C. साक्षरता D. वन आवरण



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q43. A total of four different \_\_\_\_\_ can be found in the state of Haryana.

- A. Mountain ranges  
B. River systems  
C. Geographical features  
D. Political divisions

Q43. हरियाणा राज्य में कुल चार अलग-अलग \_\_\_\_\_ पायी जाती हैं।

- A. पर्वत श्रृंखलाएं  
B. नदी प्रणाली  
C. भौगोलिक विशेषताएँ  
D. राजनीतिक डिवीज़न

Q44. The highest mountain peak in Haryana, located in Panchkula and is part of the Shivalik Hill Range of Greater Himalayas is \_\_\_\_\_.

- A. Karoh Peak  
B. Nanda Devi  
C. Saltoro Kangri  
D. Kamet

Q44. हरियाणा की सबसे ऊँची पर्वत चोटी, जो पंचकुला में स्थित है तथा वृहत हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, वह \_\_\_\_\_ है।

- A. करोह चोटी  
B. नंदादेवी  
C. साल्टोरो कांगड़ी  
D. कामेट पर्वत

Q45. Damdama is the name of the \_\_\_\_\_ in Haryana.

- A. Highest mountain peak  
B. Longest river  
C. Biggest Lake  
D. Largest Tiger reserve

Q45. दमदमा हरियाणा में \_\_\_\_\_ का नाम है।

- A. सबसे ऊँची पर्वत चोटी  
B. सबसे लंबी नदी  
C. सबसे बड़ी झील  
D. सबसे बड़े टाइगर रिजर्व

Q46. Haryana has a total of six \_\_\_\_\_ divisions.

- A. Geographical  
B. Political  
C. Administrative  
D. Climatic



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q46. हरियाणा में कुल छह \_\_\_\_\_ डिवीज़न हैं।

- A. भौगोलिक  
B. राजनीतिक  
C. प्रशासनिक  
D. जलवायु

Q47. The district of Nuh in Haryana, comes under the administrative division of \_\_\_\_\_.

- A. Rohtak  
B. Karnal  
C. Faridabad  
D. Ambala

Q47. हरियाणा का नूह जिला, \_\_\_\_\_ प्रशासनिक डिवीज़न के अंतर्गत आता है।

- A. रोहतक  
B. करनाल  
C. फरीदाबाद  
D. अंबाला

Q48. As on 1 February 2020, who is the Chief Justice of High Court of Haryana?

- A. Justice Ravi Shanker Jha  
B. Justice Aja Tiwari  
C. Justice N V Ramana  
D. Justice Alok Sood

Q48. 1 फरवरी 2020 तक, हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?

- A. जस्टिस रवि शंकर झा  
B. जस्टिस अजा तिवारी  
C. जस्टिस एन वी रमना  
D. जस्टिस आलोक सूद

Q49. Kurukshetra has been described as the Dharmakshetra Kurukshetra in the first verse of the \_\_\_\_\_.

- A. Puranas  
B. Ramayana  
C. Mahabharatha  
D. Gita

Q49. कुरुक्षेत्र को \_\_\_\_\_ के पहले श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है।

- A. पुराणों  
B. रामायण  
C. महाभारत  
D. गीता



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q50. Which of the following animal is worshipped as part of the celebration of Guga Navami festival ?

- A. Cow  
C. Elephant
- B. Snake**  
D. Peacock

Q50. निम्नलिखित में से किस जानवर को गुगा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है?

- A. गाय  
C. हाथी
- B. साँप**  
D. मोर

Q51. What is the state flower of Haryana?

- A. Lotus**  
C. Sunflower
- B. Rose  
D. Jasmine

Q51. हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है?

- A. कमल**  
C. सूरजमुखी
- B. गुलाब का फूल  
D. चमेली

Q52. Who is considered as the father of Artificial Intelligence?

- A. Charles Babbage  
**C. John McCarthy**
- B. Dennis Ritchie  
D. Tim Patterson

Q52. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?

- A. चार्ल्स बैबेज  
**C. जॉन मैकार्थी**
- B. डेनिस रिची  
D. टिम पैटरसन

Q53. What is DMA in computers?

- A. Dealer Message Activity  
C. Distinct Memory Access
- B. Direct Message Access  
**D. Direct Memory Access**



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBN, UHBN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q53. कंप्यूटर में DMA का क्या अर्थ है?

- A. डीलर मेसेज एक्टिविटी  
B. डायरेक्ट मेसेज एक्सेस  
C. डिस्टिन्क्ट मेमोरी एक्सेस  
D. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस

Q54. Which of the following helps to compress and send large files, across the network?

- A. Comp Zip  
B. File Zip  
C. Win Zip  
D. Win Stack

Q54. निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नेटवर्क में बड़ी फ़ाइलों को संपीड़ित करने और उन्हें भेजने में मदद करता है?

- A. Comp Zip  
B. File Zip  
C. Win Zip  
D. Win Stack

Q55. Which of the following is NOT a peripheral device?

- A. Printer  
B. CPU  
C. Keyboard  
D. Mouse

Q55. निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण उपकरण नहीं है?

- A. प्रिंटर  
B. CPU  
C. की-बोर्ड  
D. माउस

Q56. Which of the following is an impact printer?

- A. Laser Printer  
B. Thermal Printer  
C. Dot Matrix Printer  
D. Inkjet Printer

Q56. निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है?

- A. लेजर प्रिंटर  
B. थर्मल प्रिंटर  
C. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर  
D. इंकजेट प्रिंटर



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q57. An e-mail has all the features of \_\_\_\_\_.

- A. MS - Word  
B. MS - Powerpoint  
C. MS - Access Database  
D. MS - Excel

Q57. एक ई-मेल में \_\_\_\_\_ की सभी विशेषताएं हैं।

- A. MS- वर्ड  
B. MS - पावरपॉइंट  
C. MS - एक्सेस डेटाबेस  
D. MS- एक्सेल

Q58. What is the shortcut key to undo an action in MS Word?

- A. Ctrl + W  
B. Ctrl + B  
C. Ctrl + Z  
D. Ctrl + U

Q58. एम एस वर्ड में किसी क्रिया को पूर्ववत् करने के लिए शॉर्ट-कट कुंजी क्या है?

- A. Ctrl + W  
B. Ctrl + B  
C. Ctrl + Z  
D. Ctrl + U

Q59. The maximum of \_\_\_\_\_ columns can be inserted in a MS Word 2010.

- A. 45  
B. 54  
C. 63  
D. 70

Q59. MS- वर्ड 2010 में अधिकतम \_\_\_\_\_ कॉलम को इन्सर्ट किया जा सकता है।

- A. 45  
B. 54  
C. 63  
D. 70

Q60. Identify the odd man from among the below options.

- A. Ice  
B. Water  
C. Juice  
D. Petrol

Q60. नीचे दिए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें।

- A. बर्फ  
B. पानी  
C. रस  
D. पेट्रोल



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q61. Identify the relation among the given set of words and fill the blank with the appropriate word. Teacher : Chalk :: Doctor : \_\_\_\_\_.

- A. Medicine  
B. Treatment  
C. Stethoscope  
D. Illness

Q61. दिए गए शब्दों के समूह के बीच के संबंध को पहचानिए तथा उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें।  
Teacher: Chalk :: Doctor : \_\_\_\_\_.

- A. Medicine  
B. Treatment  
C. Stethoscope  
D. Illness

Q62. In a class of 33 students Sunil is ranked 17<sup>th</sup> from the last. What is his rank from the beginning?

- A. 15<sup>th</sup>  
B. 16<sup>th</sup>  
C. 17<sup>th</sup>  
D. 18<sup>th</sup>

Q62. 33 छात्रों की एक कक्षा में सुनील आखिरी स्थान से 17 वें स्थान पर है। प्रारंभ से उसका क्या स्थान है?

- A. 15 वीं  
B. 16 वीं  
C. 17 वीं  
D. 18 वीं

Q63. Sunitha is ranked 9<sup>th</sup> from the front and there are six girls after Sunitha and before Rekha. Also Rekha is ranked 12<sup>th</sup> from the last end. Find the total number of students in the class .

- A. 28  
B. 30  
C. 25  
D. 27

Q63. सुनीता सामने से 9 वें स्थान पर है तथा सुनीता के बाद और रेखा से पहले छह और लड़कियां हैं। साथ ही रेखा आखिरी छोर से 12 वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- A. 28  
B. 30  
C. 25  
D. 27





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q64. A man starts from his office and travels in the east direction for about 8 kms. Further he takes a right turn and travels for 6 kms to reach his home. What is the shortest distance and the direction of his house, from the office?

- A. 14 kms, South  
B. 12 kms, North East  
C. 10 kms, South East  
D. 8 Kms, South West

Q64. एक आदमी अपने कार्यालय से लगभग 8 kms तक पूर्व दिशा में यात्रा करता है। और इसके बाद वह दाहिना मोड़ लेता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 6 kms की यात्रा करता है। कार्यालय से उसके घर की सबसे छोटी दूरी और दिशा क्या है?

- A. 14 kms, दक्षिण  
B. 12 kms, उत्तर पूर्व  
C. 10 kms, दक्षिण पूर्व  
D. 8 Kms, दक्षिण पश्चिम

Q65. Ramnath starts from his field and walks towards the south direction for 100m, further he turns right twice and walks for about 200m and 100m respectively. Further he walks about 100m towards the west direction. How far is he from the starting point?

- A. 100 m  
B. 200 m  
C. 300 m  
D. 400 m

Q65. रामनाथ अपने खेत से शुरू होकर 100 m दक्षिण दिशा की ओर चलता है, आगे वह दो बार दाहिनी ओर मुड़ता है और क्रमशः लगभग 200 m और 100 m चलता है। आगे वह पश्चिम दिशा की ओर लगभग 100 m चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?

- A. 100 m  
B. 200 m  
C. 300 m  
D. 400 m

Q66. On seeing a lady, Vinay realizes that she is the daughter of the wife of his father. How is the lady related to Vinay?

- A. Aunt  
B. Mother  
C. Daughter  
D. Sister

Q66. एक महिला को देखकर, विनाय को पता चलता है कि वह उसके पिता की पत्नी की बेटी है। महिला विनाय से कैसे संबंधित है?

- A. चाची  
B. माँ  
C. बेटी  
D. बहन



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q67. When Suresh sees Mohan he identifies him to be the Father of the brother of his niece.  
How is Mohan related to Suresh ?

- A. Son  
B. Father  
C. Brother-in-law  
D. Son-in-Law

Q67. जब सुरेश मोहन को देखता है तो वह उसकी पहचान अपनी भतीजी के भाई के पिता के रूप में पहचानता है। मोहन सुरेश से कैसे संबंधित है?

- A. बेटा  
B. पिता  
C. बहनोई  
D. दामाद

Q68. Arrange the following names in alphabetical order.

1. Sukesh Ranjesh 2. Neha Jaiswal 3. Birju Pandey 4. Krish Zehan

- A. 1, 4, 3, 2  
B. 3, 4, 1, 2  
C. 3, 4, 2, 1  
D. 4, 3, 2, 1

Q68. निम्नलिखित नामों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें।

1. Sukesh Ranjesh 2. Neha Jaiswal 3. Birju Pandey 4. Krish Zehan

- A. 1, 4, 3, 2  
B. 3, 4, 1, 2  
C. 3, 4, 2, 1  
D. 4, 3, 2, 1

Q69. How many 7's in the below series is immediately preceded and followed by an odd number?

4 5 7 9 2 5 0 7 5 8 9 3 6 5 7 9 8 3 3 6 7 8 4 9 8 7 1 6 5 1 8 9 5 1 6

- A. Two  
B. Three  
C. Four  
D. Five

Q69. नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं, जिनके तत्काल आगे और पीछे एक विषम संख्या है?

4 5 7 9 2 5 0 7 5 8 9 3 6 5 7 9 8 3 3 6 7 8 4 9 8 7 1 6 5 1 8 9 5 1 6

- A. दो  
B. तीन  
C. चार  
D. पांच



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q70. Arrange the dates in chronological order from the earliest to the most recent.

1. May 15, 1992 2. March 25, 1991 3. August 09, 1992 4. Aug 19, 1991

A. 2, 4, 1, 3

B. 3, 2, 1, 4

C. 2, 3, 1, 4

D. 3, 4, 2, 1

Q70. तिथियों को पूर्व से लेकर सबसे हाल के कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें।

1. May 15, 1992 2. March 25, 1991 3. August 09, 1992 4. Aug 19, 1991

A. 2, 4, 1, 3

B. 3, 2, 1, 4

C. 2, 3, 1, 4

D. 3, 4, 2, 1

Q71. Arrange the dates in chronological order starting from the recent.

1. September 14, 2012 2. February 16, 2016 3. August 12, 2013 4. June 13, 2013

A. 2, 1, 4, 3

B. 4, 3, 2, 1

C. 2, 4, 3, 1

D. 2, 3, 4, 1

Q71. हाल की तारीख से शुरू करके तिथियों को कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें।

1. September 14, 2012 2. February 16, 2016 3. August 12, 2013 4. June 13, 2013

A. 2, 1, 4, 3

B. 4, 3, 2, 1

C. 2, 4, 3, 1

D. 2, 3, 4, 1

Q72. Match the correct address from the below options:

**Indian Institute of Planning and Management(IIPM),**

6-3-457, Sundar Singh Marg, (near to Lotus pond)

Osmania University Campus, Mangalore - 587009

A. **Industrail Institute of Planning and Management(IIPM),**

6-3-457, Sundar Singh Marg, (near to Lotus pond)  
Osmania University Campus, Mangalore - 587009

B. **Indian Institute of Planning and Management(IIPM),**

6-3-457, Sundar Singh Marg, (near to Lotus pond)  
Osmania University Campus, Hyderabad - 587009

C. **Indian Institute of Planning and Management(IIPM),**

6-3-457, Sundar Singh Marg, (near to Lotus pond)  
Osmania Works, Mangalore - 587009

D. **Indian Institute of Planning and Management(IIPM),**

6-3-457, Sundar Singh Marg, (near to Lotus pond)  
Osmania University Campus, Mangalore - 587009



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q72. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पते का मिलान करें:  
भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (IIPM),  
6-3-457, सुन्दर सिंह मार्ग, (लोटस तालाब के पास)  
ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मैंगलोर – 587009

A. औद्योगिक योजना और प्रबंधन संस्थान (IIPM)  
6-3-457, सुन्दर सिंह मार्ग, (लोटस तालाब के पास)  
ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मैंगलोर – 587009

C. भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (IIPM),  
6-3-457, सुन्दर सिंह मार्ग, (लोटस तालाब के पास)  
ओस्मानिया कैंपस, मैंगलोर – 587009

B. भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (IIPM),  
6-3-457, सुन्दर सिंह मार्ग, (लोटस तालाब के पास)  
ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, हैदराबाद – 587009

D. भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (IIPM),  
6-3-457, सुन्दर सिंह मार्ग, (लोटस तालाब के पास)  
ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मैंगलोर – 587009

Q73. 48, 96, 60, 32, 80, 72, 78, 24, 8.  
Identify the number which does not belong to this series.

- A. 8  
C. 78  
B. 60  
D. 32

Q73. 48, 96, 60, 32, 80, 72, 78, 24, 8.  
उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रंखला से सम्बंधित नहीं है।

- A. 8  
C. 78  
B. 60  
D. 32

Q74. In a certain code language the word ENVIRONMENT is written as MENTRONENVI.  
Find the code for the word MANAGEMENT in the same code language.

- A. GEMENTMANA  
C. ANAMGEMENT  
B. MENTGEMANA  
D. TNEMGEMANA

Q74. ENVIRONMENT को किसी निश्चित कोड भाषा में MENTRONENVI लिखा गया है। इसी कोड भाषा में  
MANAGEMENT को कैसे लिखा जायेगा?

- A. GEMENTMANA  
C. ANAMGEMENT  
B. MENTGEMANA  
D. TNEMGEMANA



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q75.  $(30 + 18 \times 4 - 2) / (12 - 20 \div 4 + 3) = ?$   
Simplify the above expression.

- A. 8 **B. 10**  
C. 12 D. 14

Q75.  $(30 + 18 \times 4 - 2) / (12 - 20 \div 4 + 3) = ?$   
उपरोक्त व्यंजक को सरल कीजिये।

- A. 8 **B. 10**  
C. 12 D. 14

Q76. A book is sold for a profit of 40%. If the cost price of the book is Rs.25, find its selling price.

- A. Rs.28 B. Rs.32  
**C. Rs.35** D. Rs.39

Q76. एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पुस्तक का लागत मूल्य 25 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- A. Rs.28 B. Rs.32  
**C. Rs.35** D. Rs.39

Q77. The selling price of 10 T-Shirts is equal to the cost price of 13 T-Shirts. Find the profit percentage in this transaction.

- A. 18% B. 20%  
C. 25% **D. 30%**

Q77. 10 टी-शर्ट्स का विक्रय मूल्य 13 टी-शर्ट्स के लागत मूल्य के बराबर है। लेनदेन में हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें।

- A. 18% B. 20%  
C. 25% **D. 30%**

Q78. The agricultural yield increases from 80 tons to 90 tons. Find the percentage increase in the yield.

- A. 10% **B. 12.5%**  
C. 15% D. 22.5%



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q78. कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 90 टन हो जाता है। कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें।

- A. 10% **B. 12.5%**  
C. 15% D. 22.5%

Q79. The difference between 30% of a number and 50% of a number is 200. Find the number.

- A. 800 B. 900  
**C. 1000** D. 1200

Q79. एक संख्या के 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है। संख्या ज्ञात कीजिये।

- A. 800 B. 900  
**C. 1000** D. 1200

Q80. Find the mean of 32 and 50.

- A. 39 B. 42  
C. 37 **D. 41**

Q80. 32 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए।

- A. 39 B. 42  
C. 37 **D. 41**

Q81. Two numbers are in the ratio 2 : 3. If 8 is added to both the numbers the numbers are in the ratio of 8 : 11. Find the smallest of the two numbers.

- A. 16 B. 20  
C. 22 **D. 24**

Q81. दो संख्याएँ 2:3 के अनुपात में हैं . यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो संख्याएँ 8: 11 के अनुपात में हो जाती हैं। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- A. 16 B. 20  
C. 22 **D. 24**



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q82. Find the average of the first six prime numbers.

- A. 5.1  
C. 7.2
- B. 6.8  
D. 8.4

Q82. पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए

- A. 5.1  
C. 7.2
- B. 6.8  
D. 8.4

Q83. The average price of three items of furniture is Rs.22,500. If their prices are in the ratio of 3 : 5 : 7, find the price of the lowest priced furniture.

- A. Rs.9000  
C. Rs.13500
- B. Rs.10500  
D. Rs.15000

Q83. फर्नीचर की तीन वस्तुओं की औसत कीमत Rs.22,500 है। यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में हैं, तो सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत का पता लगाएं।

- A. Rs.9000  
C. Rs.13500
- B. Rs.10500  
D. Rs.15000

Q84. A person travels from P to Q at a speed of 40 kmph and returns by increasing his speed by 50%. What is the average speed for both the trips?

- A. 36 kmph  
C. 50 kmph
- B. 48 kmph  
D. 56 kmph

Q84. एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 40 किमी प्रति घंटे की गति से करता है और वापस लौटते समय अपनी गति को 50 प्रतिशत बाधा लेता है। दोनों यात्राओं की औसत गति क्या है?

- A. 36 kmph  
C. 50 kmph
- B. 48 kmph  
D. 56 kmph

Q85. Candella is a unit of \_\_\_\_\_.

- A. Density  
C. Light Intensity
- B. Volume  
D. Sound



# Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

## Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Evening Session

Q85. केंडेला \_\_\_\_\_ की इकाई है।

- A. घनत्व  
B. आयतन  
C. प्रकाश की तीव्रता  
D. ध्वनि

Q86. The energy possessed by a body by virtue of its position is called the \_\_\_\_\_.

- A. Electrostatic Energy  
B. Kinetic Energy  
C. Conservative Energy  
D. Potential Energy

Q86. किसी निकाय द्वारा अपनी स्थिति के कारण आधीन ऊर्जा को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

- A. स्थिर वैद्युत ऊर्जा  
B. गतिज ऊर्जा  
C. संरक्षित ऊर्जा  
D. स्थितिज ऊर्जा

Q87. The numerous compounds of Carbon are named, following the IUPAC nomenclature. What is the full form of IUPAC?

- A. Indian Union of Pure and Applied Chemistry  
B. International Union of Pure and Applied Chemistry  
C. International University of Pure and Analytical Chemistry  
D. International Union of Pure and Analytical Chemistry

Q87. कार्बन के कई यौगिकों का नाम IUPAC शब्दावली के आधार पर रखा गया है। IUPAC का विस्तारित रूप क्या है?

- A. इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री  
B. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री  
C. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री  
D. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री

Q88. Which of the following molecules have the least number of atoms ?

- A. Methane  
B. Hydro Chloric Acid  
C. Water  
D. Sulphuric Acid





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q88. निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है?

- A. मीथेन  
B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड  
C. पानी  
D. सल्फ्यूरिक एसिड

Q89. Pollination takes place in the \_\_\_\_\_.

- A. roots  
B. leaves  
C. flowers  
D. fruits

Q89. परागण \_\_\_\_\_ में होता है।

- A. जड़ों  
B. पत्तों  
C. फूलों  
D. फलों

Q90. Malaria is a life threatening disease and is generally transmitted through infected \_\_\_\_\_.

- A. bees  
B. flies  
C. mosquitoes  
D. birds

Q90. मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आमतौर पर संक्रमित \_\_\_\_\_ के माध्यम से फैलता है।

- A. मधुमक्खियों  
B. मक्खियों  
C. मच्छरों  
D. पक्षी